



The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

SRF/SEC/AGM-53/2024

06th June, 2024

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice of 53rd Annual General Meeting- SRF Limited

In Compliance with Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Newspaper publication regarding Information of fifty-third AGM and e-voting published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper, in connection with aforesaid AGM. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal
Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl : A/a

SRF LIMITED
Block - C, Sector - 45
Gurugram - 122 003
Haryana, India
Tel: +91-124-4354400
Fax: +91-124-4354500
Email: info@srf.com
Website: www.srf.com

Regd. Office:
Unit No. 236 and 237, 2nd Floor,
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase I Extension
Delhi -110 091

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF RADICO KHAITAN LTD
 Regd. Office: Rampur Distillery Bareilly Road, Rampur Uttar Pradesh 244901

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the holder: SANJAY CHUGH, Folio No. 0023687, No. of shares - 2170, Equity Shares of FV Rs. 2/-, Certificate No. - 58912, Distinctive No.(s) - 4092881-4095050

Place: New Delhi Name(s) of the Holder(s) Date: 06/06/2024 SANJAY CHUGH

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

IndiaShelter Home Loans
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट-15, 9वां तल, सेक्टर-44, इस्टीमेटेड एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002.
 शाखा कार्यालय: इन्दौर रोड-112, द्वितीय तल, मीनामी गार्डन, तिकक नगर, निकट सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110018, दुकान नंबर एस 9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीडी रोड, पीएनबी बैंक से सटी, पानीपत -132103

सार्वजनिक सूचना - अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी
 खनिज हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के तहत, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्डर फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफएफसी) (प्रिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्तियों/यों की बिक्री हो रही है।

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(ों), सह-कर्जदार(ों) तथा गारंटर(ों) अथवा उनके कानूनी अधिकार/यों को सूचना दी जाती है कि अचल सम्पत्तियों के पास बंधक/प्रतिभूति निष्पत्तियों अथवा सम्पत्तियों/यों, बिक्रीका अचल आईएफएफसी (प्रिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विराज जा रहा है, नीचे दी गई जानकारी, सह-अर्जदारों अथवा गारंटरों से बनायी जा रही है। यह सूचना के लिए दिनांक 06-07-2024 को जारी है। उक्त सूचना को 'जैसा है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर दे दी जा रही है। सूचना मूल्य और गारंटर राशि जमा नीचे दी गई है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक सभी व्यक्ति सूचना सौकरिक बिक्रीका आईएफएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 06-07-2024 को अथवा पूर्व अथ. 5 बजे तक शाखा/कार्यालय/क्यांटेन: अन्वयुक्त-112, द्वितीय तल, मीनामी गार्डन, तिकक नगर, निकट सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110018, दुकान नंबर एस 9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीडी रोड, पीएनबी बैंक से सटी, पानीपत -132103 में जमा करना होगा।

क्र. सं.	खता सं.	कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों)/गारंटर(ों)/कानूनी अधिकार(ों)/कानूनी प्रतिभूति का नाम	कच्चा का प्रकार (प्रतिभूति/भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य	व्यक्तिगत मूल्य	घरोहर राशि
	HL11HL0005000 050111247 एवं AP0-110015577	श्री/श्रीमती विंकी, श्री/श्रीमती सुनील कुमार	06-02-2024 (रूप/सात लाख बीघा इलाका कर श्री गौरीदास मारा)	₹. 75,000/- (रूप/सात लाख बीघा इलाका कर)	₹. 75,000/- (रूप/पचास हजार मात्र)	₹. 75,000/- (रूप/पचास हजार मात्र)
	LA11AL0005000 005046435 एवं AP-10101843	श्री/श्रीमती नीलम, श्री/श्रीमती मनमोहन सिंह	13-12-2023 (रूप/₹. 22,83,377/- (रूप/सात लाख बीघा इलाका कर श्री सादत मारा)	₹. 22,80,000/- (रूप/बास मात्र)	₹. 2,20,000/- (रूप/सात लाख बीघा इलाका कर)	₹. 2,20,000/- (रूप/सात लाख बीघा इलाका कर)

सम्पत्ति का वर्णन: सम्पत्तियों के सभी अंश एवं खंड: सम्पत्ति परचम नंबर 826, खसरा नंबर 57 / 10(8-0), वाका सात राम कालोनी, तहसील समालवा, जिला पानीपत, हरियाणा, क्षेत्रफल परिमाण 64 वर्ग गज चौदह(14) - उत्तर: अ उच्च स्वाम्योग, दक्षिण: श्रीमती सात की भूमि, पूर्व: कानूनी कोचर का जमीन, पश्चिम: नदी

LA11AL0005000
005046435 एवं **AP-10101843**

सम्पत्ति का वर्णन: सम्पत्तियों के सभी अंश एवं खंड: गोपाल कृष्ण कालोनी, निकट अचल नर्सिंग होम, ग्राम नरसीपुर, तहसील नारनौल, खेवट नंबर 360, खसरा नंबर 405 से 407, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा-123001, क्षेत्रफल परिमाण 6 मसला 7 सरसई (194.44 वर्ग गज) चौदह(14) - उत्तर: श्री बंद प्रकाश का मकान, दक्षिण: आन रोड, पूर्व: आन रोड, पश्चिम: श्री मोन सिंह का प्लॉट

निष्पत्ति और शर्तें:

- निष्पत्ति निविदा/बोली प्रपत्र बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय: इन्दौर रोड-112, द्वितीय तल, मीनामी गार्डन, तिकक नगर, निकट सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110018, दुकान नंबर एस 9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीडी रोड, पीएनबी बैंक से सटी, पानीपत -132103 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्व 10.00 बजे से अथ. 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
- उपरोक्त सम्पत्तियों/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं को साथ उपरिपरिष्ठित अनुसार घोषणा राशि सलन करनी होगी। ईंपकी राशि 'इंडिया शेल्डर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में होगी चाहिए। असफल बोलीदाताओं को साथ निष्पत्ति, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी।
- उपरोक्त बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा पुरंद शर्त है कि वह बोली देने हेतु निष्पत्ति के माध्यम से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होगी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उचितता के साथ निष्पत्ति के माध्यम से बिक्री करनी चाहिए। यदि प्रस्तावित राशि उपरोक्त स्वीकार करने हेतु अर्थात् प्रस्तावित होती है।
- मिथिलबोली बोलीदाता नेट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 03-07-2024 को पूर्ण 11.00 बजे तथा अथ. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं।
- सफल बोलीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तहतलत पश्चात, अथ. परिशिष्ट अनुसूची की 25 प्रतिभूति, प्राइमरी ईंपकी राशि समिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इच्छुक जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्रिस्टेड ट्रीटी द्वारा बिक्री होकर प्रस्तुत की जाएगी।

7) उपरोक्त निविदा आरंभिक राशि जमा करने के बाद, अथ. राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पुरि की तिथि से, उस दिन को लेकर, नई दिन को अन्वयुक्त रूप, या तब तक विचार वा अकराक दिवस होने की स्थिति में नई दिन के बाद पहले कार्यालय को अर्पण करनी होगी।

8) उपरिपरिष्ठित अधिष्ठित के अनुसार प्रस्तुत करने में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइस्टेड ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि इंपकी राशि इंडिया शेल्डर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा कर जो लागू होना सम्पत्ति के संबंध में सूचनाओं के रूप में सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

9) उपरोक्त बिक्री आईएफएफसी द्वारा अर्पण की गई है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि निष्पत्ति और अथ. बंधक जैकेट बिक्री/सम्पत्ति का निष्पत्ति बिक्री तथा सोसायटी बंधक की जमान/पुरि सौकरिक निष्पत्ति/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बंधक के मुद्दान की विधायनी नहीं लेती।

10) प्रिस्टेड ट्रीटी, यदि कोई, उचितता बोलीदाता द्वारा उचितता घोषित बोली राशि पर देय होगा। उचितता बोलीदाता को मुद्दान कम्पनी के पक्ष में करना होगा तथा प्रदान की गई कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी।

11) बिक्री पूर्णता होना/क्रेता को निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

12) सफल बोलीदाता/क्रेता को क्रेता प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कम्पनी के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुबंधी खर्च देवने करने होंगे।

13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निष्पत्ति प्राथमिक/स्थगित/निस्तार करने और निष्पत्ति को पूर्व सूचना दिए सह बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

14) इच्छुक बोलीदाता श्री सुधीर तोपर से मोबाइल नंबर +91 - 98184 60101 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्यालय/आरंभिक/निष्पत्ति का 30 दिन का बिक्री की तिथि

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(ों), सह-कर्जदार(ों) अथवा उनके कानूनी अधिकार/यों को सूचना दी जाती है कि वे धारा 3(2) के तहत मांग सूचना पर उच्च अदालत और खर्च सहित, नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिससे असफल सूचना पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बचका राशि, यदि कोई, अचल सम्पत्ति और लाजपत सहित वसूल की जाएगी।

वासे इंडिया शेल्डर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. प्राधिकृत अधिकारी श्री सुधीर तोपर मोबाइल नंबर +91 - 98184 60101

**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड**

कार्यालय: "चोला क्रेडिट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु टी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत
 शाखा कार्यालय: प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूजा रोड, कटोल बाग, नई दिल्ली-110005
 कॉन्टैक्ट नंबर: श्री विनय कुमार गौतम - मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
 एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियों, जिनका सार्वजनिक/भौतिक क्रेताचोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखा जा चुका है। प्रस्तावित आस्तियां "जैसा है" एवं "जो भी है वहां है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।
 एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट <https://chola-lap.procure247.com/> एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 3(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, घोरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (₹. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईंपकी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खता सं. X0HEDE0000045948 तथा X0HEDE00004263794	13-12-2023 ₹. 98,52,378.00	आवासीय प्लॉट नंबर 60, सेक्टर-09, परिमाण 420 वर्ग मीटर (502.32 वर्ग गज), जो सर्व एस्टेट नामक आवासीय कालोनी, तहसील और जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।	₹. 3,60,00,000/- ₹. 36,00,000/- ₹. 1,00,000/-	10-07-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अथ. 01.00 बजे तक 09-07-2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अथ. 05.00 बजे तक मैंट के निर्धारित समयानुसार
2.	ऋण खता सं. X0HEELD00001555817 तथा X0HEELD00002230051	27-09-2019 ₹. 1,07,58,837.16	एक ही होल्ड आवासीय प्लेट नंबर 204, द्वितीय तल (एक का अधिकार नहीं) टावर "आई" सुपर एरिया 2370 वर्ग फीट (अर्थात् 220.18 वर्ग फीट) उच्च पटले खसरा नंबर 314 और 315, सेक्टर-09, रामप्रथम ग्रीन वैशाली एक्सप्रेस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012, "रॉयल पार्क" के नाम से ज्ञात की भूमि पर फ्रीहोल्ड प्लॉट पर निर्मित है।	₹. 1,35,00,000/- ₹. 13,50,000/- ₹. 1,00,000/-	10-07-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अथ. 01.00 बजे तक 09-07-2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अथ. 05.00 बजे तक मैंट के निर्धारित समयानुसार
3.	ऋण खता सं. X0HEDE00003123388	06-10-2023 ₹. 34,04,329/-	सम्पत्ति एलआईजी प्लेट नंबर 191-ए. मू. तल, मोतिया खान, नई दिल्ली	₹. 32,50,000/- ₹. 3,25,000/- ₹. 50,000/-	10-07-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अथ. 01.00 बजे तक 09-07-2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अथ. 05.00 बजे तक मैंट के निर्धारित समयानुसार

1. ओपन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रार्थना के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीम - 81240 0030 एवं 6374845616), ई-मेल आईडी: CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com, Ms.procure247; (सम्पर्क व्यक्ति: वासु पटेल: 9510974587)

2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया <https://chola-lap.procure247.com/> एवं <https://cholamandalam.com/auction-notices> देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान: दिल्ली, एनसीआर दिनांक: 06-06-2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

**डॉ. लाल पैथलेब्स लिमिटेड**

CIN: L74899DL1995PLC063588

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक ई, सेक्टर-18, शहीबी, नई दिल्ली-110085

कॉर्पोरेट कार्यालय: 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एस्टेयट टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन: +91 124 3016500 | फैक्स: +91 124 4234468

वेबसाइट: www.lalpathlabs.com | ई-मेल: cs@lalpathlabs.com

30वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि 30वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को संघटित करने के लिए कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फेरेंस/अथ. ऑडियो विडियो कॉन्फेरेंस (वीसी/ओएवीएम) से शनिवार, 29 जून, 2024 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रत्येक प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए लागू नियम और कॉर्पोरेट मानले मंत्रालय (एम्सीसी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26 सितंबर, 2023, और दिनांक 5 मई 2020 अथ. प्रासंगिक परिपत्र और भारतीय प्रतिष्ठित एए निम्नलिखित (सीबी) परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार अथ. एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों के पास जून 4, 2024 को भेज दी गयी हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के साथ फीडबैक हैं। यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के साथ फीडबैक नहीं करवाया है तो कृपया अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अथ.वैकल्पिक रूप से लिखित निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कीजिए।

निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 एवं अन्य प्रासंगिक प्रपत्र(ओं) में विवरण को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तर एजेंट (अंतर्राष्ट्रीय) लिंकटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ delhi@linkintime.co.in पर पंजीकृत/अथ.वैकल्पिक करें।
 सदस्य कम्पनी की वेबसाइट <https://www.lalpathlabs.com/pdf/faq.pdf> पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") का संदर्भ भी ले सकते हैं।
 अपने डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल (डीपी) से सम्पर्क करें और अपना ई-मेल पता अपने डीपी द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करें।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि 30वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com तथा रजिस्ट्रार एंजेंट वीएसई लिमिटेड तथा मेगनाल स्टिक एसायसज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट प्रमाण. www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 30वीं एजीएम की सूचना ई-वोटिंग एंजेंट अर्थात् सेंट्रल डिजिटल रिजल्ट (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों को 30वीं एजीएम में भाग लेने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और/अथ. एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सीडीएसएल की सेवा को भी है। रिमोट ई-वोटिंग और/अथ. एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को 30वीं एजीएम की सूचना से उपलब्ध कराया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 25 जून, 2024 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार, 28 जून, 2024 को सायं 6:00 बजे समाप्त होगी। इनके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा। एप. बार सदस्यों द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के मतदान का अधिकार दिनांक शनिवार, 22 जून 2024 की कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की इतिहासी पुंजी में उनका शेयरों के प्रत्येक शेयर को अनुपात में होगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं रहे उससे सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए। कोई व्यक्ति जो 30वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त शेयर धरून कटता है और कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारिता रखता है वह मतदान करने के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु 30वीं एजीएम की सूचना का संदर्भ ले सकता है। किन्तु, यदि आप ई-वोटिंग हेतु पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मतदान हेतु आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

निम्न सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रश्न/तात्पर या समस्या के लिए आप सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting manual का संदर्भ ले सकते हैं अथवा 1800 225533 पर कॉल करे या सम्पर्क करें: श्री शशि केशव, वरिष्ठ अन्वयक, सीडीएसएल, ए. विंग, 25वीं मंजिल, मेगनाल फ्लोरस, मकतलाल मिल कम्पाउण्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परले (ए.), मुम्बई-400013, निर्दिष्ट ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@bseindia.com

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 10 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त विवरण के लिए ए. 6/- प्रति इतिहासी शेयर के अन्तिम लाभांश की सिफारिश की है जो 30वीं एजीएम में सदस्यों के अनुपात के अन्वयधीन होगी। अन्तिम लाभांश, यदि अनुमोदित होता है, तो इसे उन सदस्यों को प्रदान किया जायेगा जिनके नाम सौमवार, 10 जून, 2024 (रिपोर्ट तिथि) को सदस्यों के रजिस्ट्रार में दर्ज होंगे। बैंक खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने के लिए सदस्य कृपया अपना सम्पूर्ण बैंक विवरण (i) अपने डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल (डीपी) पर पास शेयर अंतिमिक पत्र में ही तथा (ii) अपरिस्ट/जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक पत्र में हैं) के साथ प्रभाव आईएसआर-1 में निर्धारित के अनुसार प्रासंगिक विवरण/दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए delhi@linkintime.co.in पर अर्पण कर लें।

डॉ. लाल पैथलेब्स लिमिटेड
 ह/ - विनय सुप्रान्त
 स्थान: गुरुग्राम
 तिथि: 5 जून, 2024
 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एस आर एफ लिमिटेड
 सीआईएन: L18101DL1970PLC005197
 पंजीकृत कार्यालय: ए नैलेरीया, औएलएफ मयूर विहार, गुनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फ्लोर 1 एक्सटेंशन, दिल्ली - 110091
 कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम - 122003
 दूरभाष संख्या: (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400
 फैक्स: (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500
 ईमेल: cs@srf.com, वेबसाइट: www.srf.com

वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 28 जून 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उसके अनुरूप बनाए गए नियमों तथा सूचीबद्ध विनियम, इनके साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021, 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022 तथा 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 (सामूहिक तौर पर 'एसीएम' परिपत्र) के रूप में संदर्भित) तथा सभी के परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई 2022, 5 जनवरी 2023 एवं दिनांकित 7 अक्टूबर 2023 (सामूहिक तौर पर 'सभी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फेरेंस ("वीसी") अथ. ऑडियो विडियो कॉन्फेरेंस ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की सूचना दिनांकित 7 मई 2024 में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित कर दी गई है जिनका ईमेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड / डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के साथ पंजीकृत है। पूर्वाह्न दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <https://www.srf.com/investors/reports-and-results/> पर तथा स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं मेगनाल स्टिक एसायसज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं www.nseindia.com अथ. पर तथा मेगनाल सिक्वैटिज डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल (एसएसडीएल), ई-वोटिंग एंजेंट, की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अपने सदस्यों को 53वीं वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है एवं सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- वीमेट/रिजल्ट/डिजिटल तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर शेयरों को प्रतिरिक्त करने वाले तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, हेतु रिमोट ई-वोटिंग निर्देश एवं सदस्यों द्वारा एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रणाली वार्षिक आम बैठक की सूचना का एक अंतिम अंग है जो कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एनएसडीएल, ई-वोटिंग एंजेंट, की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर भी प्रदर्शित है।
- सदस्यों के रिमोट ई-वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि (अर्थात् रिपोर्ट तिथि), शुक्रवार, 21 जून 2024 को कम्पनी की समाप्त पुंजी में उनकी भागीदारी के अनुपात में होगी। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है, और कट-ऑफ तिथि (अर्थात् शुक्रवार, 21 जून 2024) के अनुसार शेयर प्रतिरिक्त करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुप्राप्त भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- ई-वोटिंग के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने हेतु निर्देश एजीएम में दिए गए हैं, जो सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है।
- ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिंकाओं को सुशी पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in अथवा टोल फ्री नंबर 18001020990 एवं 1800224430 पर संचालित किया जा सकता है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य <https://evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन ("एफएक्यू") भी संदर्भित कर सकते हैं।

SRF LIMITED
 CIN: L18101DL1970PLC005197
Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi – 110091
Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003
 Tel. No: (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400
 Fax : (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500
 Email: cs@srf.com; Website: www.srf.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, June 28, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Listing Regulations, read with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"), and SEBI circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM dated May 07, 2024.

The Notice of the AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Transfer agents KFIN Technologies Ltd / Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the Company's website at <https://www.srf.com/investors/reports-and-results/> and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"), the e-voting agency at <https://evoting.nsdli.com>.

The Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 53rd Annual General Meeting by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote E-Voting Services provided by NSDL. The members may note the following:

- The remote e-voting instructions and the manner of E-voting by members on the day of AGM holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses forms an integral part of the Notice of Annual General Meeting which is also displayed at Company's website www.srf.com and on the website of NSDL, the e-voting agency at <https://evoting.nsdli.com>.
- The remote e-voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date (i.e. the record date), being Friday, 21st June, 2024. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date (i.e. Friday, 21st June, 2024) may obtain User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com.
- The remote e-voting portal will open from 9:00 a.m. on Tuesday, June 25, 2024 to 5:00 p.m. on Thursday, June 27, 2024. The e-voting shall not be allowed beyond the prescribed time mentioned above.
- Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting and Instructions for participation through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM which has been sent to the members through e-mail.
- Any grievances in respect of e-voting may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com. Toll free No. 18001020990 and 1800224430. In case of any queries related to e-voting, members may also refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") available at the download section of <https://evoting.nsdli.com>.

The facility for voting through electronic voting system shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote E-voting shall be able to vote at the meeting through E-voting in the AGM.

Members may participate in the 53rd AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.srf.com and on NSDL website www.evoting.nsdli.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the concerned stock exchanges i.e. BSE and NSE.

For SRF LIMITED
Sd/-
Rajat Lakhanpal
Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Date : June 05, 2024
Place: Gurugram

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED
 PIPING SYSTEMS
Regd Off: Plot No 1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Satari, Honda, Goa 403 530
Corp Off: 8th Floor, The Ruby, 29, Senapati Bapat Marg, (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400028
Tel No.: 022-6602 2222 | **Fax No.:** 022 6602 2220
Email id.: investor@princepipes.com | www.princepipes.com
 CIN: L26932GA1987PLC006287

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E - VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), and other applicable laws and regulations, if any, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 (hereinafter referred to as "MCA Circulars") the Company seeks approval of the Members through Postal Ballot for the following resolution as set out in Postal Ballot Notice dated May 16, 2024 ("Postal Ballot Notice") only by way of electronics means ("e-voting/remote e-voting"):

Item No.	Resolution	Description
1.	Special Resolution	Appointment of Mr. Ankur Bansal (DIN: 03082396), as a Non-Executive, Independent Director of the Company

The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice on Wednesday, June 5, 2024, to those Members, whose names appear on the Register of Members as on Friday, May 31, 2024 (cut-off date) as maintained by the Registrar and Transfer Agent ("RTA") and list of Beneficial Owners received from the Depositories and who have registered their e-mail addresses with the Company / Depositories. Physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not being sent to Members for this Postal Ballot in line with the exemption provided in the MCA Circulars. The documents referred to in the Postal Ballot notice are available for inspection and members seeking inspection can send an email to investor@princepipes.com. Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

Notice is available on the website of the Company www.princepipes.com and websites of the stock exchanges where the equity share of the Company are listed, i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.e-voting.nsdli.com.

In light of the MCA Circulars and as required under the provisions of the Act, Members who have not registered/ updated their email address are requested to register/ update the same (i) in case of shares held in demat mode, as per the process advised by concerned Depository Participant's; and (ii) in case of shares held in physical mode, by sending the prescribed Form ISR-1 along with requisite documents to our RTA i.e. Link Intime India Private Limited.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. **E-voting will commence from 9:00 a.m. (IST) on Saturday, June 8, 2024 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, July 7, 2024.** At the end of the e-voting period, the facility shall forthwith be blocked, and e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Only those Members whose names were recorded in the Register of Members of the Company as on cut-off date are entitled to cast their votes on the Resolution. Once the vote is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The instructions for process of e-voting, including the manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company, are provided in the Postal Ballot Notice.

M/s. Sanjay Dholakia & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case shareholders have any queries regarding e-voting may contact: National Securities Depository Limited (NSDL) at evoting@nsdl.com or call at no.: 022 - 48867000 (in case shareholders are holding securities in demat mode with NSDL).

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorized by the Chairman and the result of the voting by Postal Ballot will be announced within two (2) working days from conclusion of the e-voting period. The results of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the website of the Company at www.princepipes.com, on the website of NSDL at www.evoting@nsdl.com while simultaneously being communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where the equity shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors
For Prince Pipes and Fittings Limited

Place : Mumbai
Date : June 06, 2024

Shailesh Bhaskar
Company Secretary

SAGAR CEMENTS LIMITED
 CIN: L26942TG1981PLC002887
 Regd. Office : Plot No. 111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.
 Phone: 040 23351571, email: info@sagarcements.in, Website: www.sagarcements.in

Notice of 43rd Annual General Meeting and e-voting Information and Book Closure
 Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Members of Sagar Cements Limited will be held on **Wednesday, the 26th day of June, 2024, at 3.00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company sent the Notice of the AGM as part of the Integrated Report for the year 2023-24 on 4th June, 2024 through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Limited and Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, August 17, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 07, 2023. The requirement of sending the physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide the said MCA and SEBI Circulars.

The Integrated Report of the Company containing the Notice of the AGM is also available for download from the Company's website at <https://sagarcements.in/wp-content/uploads/2024/06/SCI-Integrated-Report-FY-2024.pdf> and on the website of the stock exchanges NSE and BSE at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com>. The Integrated Report is also available on the website of M/s. KFin Technologies Limited at <https://www.evoting.kfintech.com>, the Registrar and Transfer Agent of the Company.

Remote E-Voting:
 Pursuant to Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Secretarial standards-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General meetings, the Company is intended to provide e-voting facility before the AGM and during the AGM to the members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the 43rd Annual General Meeting. The members may cast their vote electronically through e-voting system of M/s. KFin Technologies Limited.

However, in pursuant to SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on "e-voting facility provided by listed Companies", e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts / websites of Depositories / DPs in order to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (ESP) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period will commence on **Saturday, the 22nd June, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, the 25th June, 2024 at 5.00 p.m. (IST)**. During this period, members holding shares as on cut-off date of **19th June, 2024**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by KFin Technologies Limited thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The members who have cast their votes by remote-evoting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but they shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on **19th June, 2024**, being the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com.

The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the meeting which is available on the Company's website and also on the website of KFin Technologies Limited. However, if a person is already registered with KFin Technologies Limited for e-voting, then his/her existing user ID and password can be used for casting vote.

In case of any queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available at the downloads section of <https://www.evoting.kfintech.com> or may contact: Mr. K.Raj Kumar, Assistant Vice President, KFin Technologies Limited, Unit: Sagar Cements Limited, Sempalium Building, Tower B - Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramuda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032. Toll Free No. : 1800-3034-001.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th June, 2024 to 26th June, 2024** (both days inclusive) for the purpose of determining members eligible for participation in voting on the resolutions contained in the Notice of the AGM and for the dividend (if declared), threat as mentioned in the said Notice.

Update of Bank Mandate and KYC details
 Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in to their bank account through Electronic Clearing Services or any other means may follow the below instructions:

Physical Holding	Demat Holding
Send a scanned copy of the following documents to enward.iss@kfintech.com latest by 19th June, 2024 . a) Duly filled & signed ISR Form-1 for updation of shareholder's Bank mandate, KYC details and changes in your address and contact details. b) Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly. c) Self-attested scanned copy of the Pan Card, and d) Self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Election identity card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the company.	Members holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their respective DP's.

For and on behalf of Sagar Cements Limited

J. Raja Reddy
Company Secretary
Membership No. A31113

Place: Hyderabad
Date: 5th June, 2024

J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LIMITED
Regd. Office: Neelam Centre, 'B' Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030.
Corporate Office: Energy IT Park, Unit A, 8th Floor, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.
 Phone: 022-2439 5200 / 2439 5500 Fax : 022 – 2431 5331/ 2431 5334
 CIN : L24390MH1976PLC019380 Website: www.jbpharma.com E-mail : investorelations@jbpharma.com

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") and other applicable provisions of the Act and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (including any statutory modification or re-enactment thereof) read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company is seeking assent or dissent of the members of the Company by voting through postal ballot for appointment of Mr. Arun Duggal (DIN: 00024262) as Non-Executive Independent Director of the Company by Special Resolution as set out in the postal ballot notice dated June 3, 2024 ("the said Postal Ballot notice").

The Company has completed sending of the said Postal Ballot notice accompanied by an explanatory statement through e-mail on June 5, 2024 to those members of the Company who have registered their e-mail addresses with the Company or depository participant/depository as on May 31, 2024 ("cut-off date"). The right of members to receive the said Postal Ballot notice and the right to vote on the said resolution shall be reckoned as of the cut-off date and a person who is not a member of the Company as on the cut-off date should treat the said Postal Ballot notice for information purposes only. The voting right of the members shall be proportionate to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), read with Securities and Exchange Board of India Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the rules framed thereunder and the MCA Circulars, the manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting i.e., by casting votes electronically instead of submitting postal ballot form. Pursuant to the enabling provisions of the MCA Circulars, hard copy of the notice, postal ballot form and postage pre-paid reply envelope are not sent to the members and the members are accordingly requested to convey their assent or dissent only through remote e-voting.

The members of the Company are hereby informed and are requested to note that:

- The business as set out in the said Postal Ballot notice is to be transacted by the members through facility of remote e-voting (i.e. e-voting from any place) only. The remote e-voting facility is provided by the Company through e-voting platform of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating voting through electronic means, which is the authorized agency. The facility of casting votes by the members using remote e-voting system is provided by NSDL as per provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The details of the process and the manner of remote e-voting has been communicated to the members through e-mail read with the said Postal Ballot notice.
- This said Postal Ballot notice is available on the website of the Company at www.jbpharma.com, on the website of NSDL at www.evoting.nsdli.com, on website of BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com.
- The remote e-voting has commenced on Thursday, June 6, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and would end on Friday, July 5, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
- During the above voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date shall be entitled to cast their vote through remote e-voting.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ashish Bhatt, proprietor of Ashish Bhatt & Associates, Practising Company Secretary, as Scrutinizer to conduct the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the postal ballot will be declared on or before Monday, July 8, 2024 along with Scrutinizer's report. The same will also be placed on the Company's website www.jbpharma.com, and website of NSDL www.evoting.nsdli.com, and intimated to NSE and BSE and will also be available on their website www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.
- The members who have not registered their e-mail address with the Company or depository participant/depository, are requested to follow the following process for procuring User ID and Password for remote e-voting:
 - In case shares are held in physical form, please provide your name, folio no., scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy), Aadhar (self-attested scanned copy) by e-mail to investorelations@jbpharma.com.
 - In case shares are held in dematerialised mode, please provide your name, DP ID-Client ID, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy), Aadhar (self-attested scanned copy) by e-mail to investorelations@jbpharma.com.
 - Alternatively, shareholder may send an e-mail request to evoting@nsdl.com for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned above.
- The members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) (for shareholders) and e-voting user manual for shareholders available at www.evoting.nsdli.com, or call on toll free no.: 022 - 4886 7000; and
- The members may contact the following officials of NSDL responsible to address grievances, if any, connected with facility of e-voting:

Name : Mr. Amit Vishal/Ms. Pallavi Mhatre
 Designation : Asst. Vice President / Senior Manager
 Address : National Securities Depository Limited
 Office : Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013
 Telephone : Toll free no.: 022 - 4886 7000
 Email : evoting@nsdl.com

For J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
Sd/-
Sandeep Phadnis
Company Secretary
Membership No.: A11530

Place : Mumbai
Date : June 6, 2024

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
 Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135
Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ONE BKC, A - Wing, 13th Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051; Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicpruam.com, Email id: enquiry@icicpruam.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Equity Savings Fund, ICICI Prudential Corporate Bond Fund, ICICI Prudential Bond Fund and ICICI Prudential Savings Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on June 10, 2024*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{5#}	NAV as on June 4, 2024 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Equity Savings Fund		
Quarterly IDCW	0.18	12.93
Direct Plan – Quarterly IDCW	0.18	15.08
ICICI Prudential Corporate Bond Fund		
Quarterly IDCW	0.1513	11.0054
Direct Plan – Quarterly IDCW	0.2161	15.2170
ICICI Prudential Bond Fund		
Half Yearly IDCW	0.1146	11.0686
Direct Plan – Half Yearly IDCW	0.1172	10.7425
Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 100/- each) ^{5#}	NAV as on June 4, 2024 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Savings Fund		
Quarterly IDCW	1.6459	108.7747
Direct Plan – Quarterly IDCW	1.6769	109.0180

₹ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Place: Mumbai
Date : June 5, 2024
Sd/-
Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicpruam.com
 Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.
 To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicpruam.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Kothari Group
GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED
Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
 CIN : L51905WB1935PLC008194, Website: www.gillandersarbuthnot.com
 Telephone: 033-2230-2331, Fax: 033-2230-4185
 E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

NOTICE OF THE 90TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 90th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Friday, the 28th day of June, 2024 at 10.00 A.M.** (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility **ONLY**, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), read with MCA & SEBI Circulars issued from time to time in this regard.

Pursuant to the Circulars, Notice of the AGM including necessary instructions for attending the AGM and remote E-Voting has already been sent through e-mails as registered by the members. The Notice and the Annual Report 2023-24 is also available on the Company's website in the 'Investors' section at www.gillandersarbuthnot.com, additionally on the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") at www.evoting@india.com.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of